



## प्रमाणित फार्म सलाहकार / प्रमाणित पशुधन सलाहकार

-- व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए

एक विशेष फसल/ पशुधन में कृषि विस्तार कर्मी को विशेषज्ञ के रूप में परिवर्धित करने के लिए मैनेज ने “प्रमाणित फार्म सलाहकार” कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

इस कार्यक्रम में तीन मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल फसल/ पशुधन के नवीनतम तकनीकों की आधारभूत विषयों पर है। इस कार्यक्रम में पंजीकृत आवेदक को तीन महीनों तक मैनेज द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

तत्पश्चात, सफल आवेदक विशेष फसल या क्षेत्र का चयन उस विषय के विशेषज्ञ बनने के लिए कर सकता है। विशेषज्ञता विषयों की सूची संलग्न है। तथापित विशेषज्ञता प्रशिक्षण कम से कम 20 आवेदक पंजीकृत होने तक नहीं किया जा सकता। चुने गए फसल/ उद्यम के आधार पर, आवेदकों को संबद्ध आई सी ए आर संस्थान/ राज्य कृषि विश्वविद्यालय या अन्य कोई नामी संस्थान के अधीन 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान, आवेदक विषयों पर गहरा ज्ञान प्राप्त करेगा तथा चुने गए फसल/ उद्यम से संबंधित नवीनतम तकनीकियों को सीखेगा। सश्रम प्रशिक्षण के बाद, एक वर्ष के लिए संबद्ध अनुसंधान संस्थान के एक मेंटर वैज्ञानिक के साथ लगाते है ताकि उन्हें क्षेत्रगत समस्याओं से निपटने तथा तकनीकी निर्देश प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण काल संपूर्ण होने पर आवेदकों के ज्ञान का आकलन चुने गए मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा और उन्हें प्रमाणित फसल सलाहकारी सेवक के रूप में मैनेज तथा तकनीकी भागीदार द्वारा घोषित किया जाएगा।

**नाम दर्ज करने हेतु योग्यता:** कोई भी विस्तार अधिकारी/ एग्निप्रेन्यूर जिसने बी. एस सी (एजी) या तत्संबंधी क्षेत्रों में 55 वर्ष की आयु तक प्रवेश लेने योग्य है।

**शुल्क:** सरकारी कर्मचारियों के लिए रु.5,000/- शुल्क है और निजी आवेदक एवं एग्निप्रेन्यूरों के लिए यह शुल्क रु. 15,000/- प्रति आवेदक है जो कि मैनेज, हैदराबाद के नाम पर डी डी के रूप में अदा करनी है। सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर चैनल द्वारा भेजना है। भरे आवेदन उपनिदेशक (ओ एस पी एम), राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 30 के पते पर भेजें।

**प्रत्याशित परिणाम:** पाठ्यक्रम को पूरा करने वाला व्यक्ति कृषि विस्तार प्रबंध के सामान्य ज्ञान के अलावा एक विशेष फसल/ पशुधन के संबंध में उच्च ज्ञान प्राप्त करेगा।

“प्रमाणित फार्म सलाहकार” के रूप में प्रमाणीकरण प्राप्त आवेदकों की सूची मैनेज के वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा और विशेषताओं के आधार पर लोग इनकी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं।

इस पाठ्यक्रम में रुचि रखने वाले आवेदक अपना आवेदक डी डी सहित मैनेज को भेजें।